

रात्रिभोजन - अन्य दर्शनमें निषेध

श्री जिनशासन जितनी सूक्ष्मता अन्य दर्शनमें न भी हो, परंतु वह भी रात्रिभोजन में असंख्य जीवों की हिंसा को स्वीकार करते हैं और रात्रिभोजन को वह महापाप कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त वे रात्रिभोजन को नरक का नेशनल हाइवे नम्बर एक गिनते हैं। और कहते हैं कि- रात्रिभोजन करनेवालों के जप-तप-तीर्थयात्रादि रूप सत्कार्य (पुण्य) निष्फल होते हैं।

वर्तमानमें शायद धर्मगुरु उनको शास्त्र की सत्य बातों से अवगत न भी कराते हो या उनको अंधेरे में भी रखते हो; पर उससे रात्रिभोजन में लगनेवाला पाप लगना बंध तो नहीं हो जाता और उससे रात्रिभोजन सेव्य भी नहीं बनता।

आस्तिक दर्शनो में और योग दर्शन में भी रात्रिभोजन को पाप माना है और उसे अभक्ष बताया है। और उसके त्याग की ही प्रेरणा दी है। उन्होंने रात्रिभोजन त्याग का फल एक माह में पंद्रह उपवास (बीना फराल का) का पुण्य बताया है और एक बार के रात्रिभोजन के पाप की शुद्धि सहस्र चांद्रायण तप से भी नहीं हो पाती ऐसा भी बताया है।

रात्रिभोजन त्याग के बारेमें ग्रंथाधारः

चत्वारो नरकद्वारा, प्रथमं रात्रिभोजनम् ।

परस्त्रीगमनं चैव, सन्धानानन्तकायिके । । पद्मपुराण-प्रभासखंड.

नरक के चार दरवाजे हैं:- १.रात्रिभोजन २.परस्त्रीगमन ३.आचार और ४.अनंतकाय (कंदमूल) भक्षण।

अर्थात् जो इन चार पापों से निवृत्त नहीं होते उनकी नरक में जानेकी संभावनाए अत्यंत अधिक है। उनको नरक में अनंत दुःख भोगने पडते हैं।

नरक का जघन्य (कमसे कम = MINIMUM) आयु १०,००० वर्ष है और उत्कृष्ट (ज्यादासे ज्यादा = MAXIMUM) आयु ३३ सागरोपम (असंख्यात काल) का है। नरक में हर समय (काल का सबसे छोटा अंश) अनंत दुःख है, जिसका वर्णन करना भी असंभव है।

मद्यमांसाशनं रात्रौ - भोजनं कंदभक्षणम् ।

ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां, तीर्थयात्रा जपस्तपः ।। महाभारत (ऋषीश्वरभारत)

जो लोग मदिरापान करते हैं-शराब पीते हैं, मांसाहार-मांस, मछली, अण्डे, वगैरेह का भक्षण करते हैं, रात्रिभोजन करते हैं और कंदमूल-अनंतकाय का भक्षण करते हैं उनकी तीर्थयात्रा, जप-तपादि अनुष्ठान निष्फल होते हैं।

अर्थात् रामायण की तरह महाभारत में भी मदिरापान, मांसाहार, रात्रिभोजन और कंदमूल त्याग का ही उपदेश दिया है।

अस्तंगते दिवानाथे, आपो रूधिरमुच्यते ।

अन्नं मांससमं प्रोक्तं, मार्कण्डेयमहर्षिणा ।। मार्कण्डेयपुराण

मार्कण्डेयऋषि कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद पानी पीना वह खून पीने जैसा है और अन्न खाना वह मांस खाने जैसा है।

मृते स्वजनमात्रेऽपि, सूतंक जायते किल ।

अस्तंगते दिवानाथे, भोजनं किमु क्रियते ? ।।

स्वजन की मृत्यु से सूतक लगता है, तो फिर सूर्यास्त के बाद भोजन कैसे कर सकते हैं?

अर्थात् स्वजन की मृत्यु होने के बाद जब तक प्रेत घरमें होता है तब तक कोई भोजन नहीं करते, तब फिर सूर्यदेव के अस्त हो जाने के बाद भोजन कैसे कर सकते हैं? अर्थात् रात्रिभोजन कैसे कर सकते हैं?

मद्यमांसाशनं रात्रौ-भोजनं कंदभक्षणम् ।
भक्षणात् नरकं याति, वर्जनात् स्वर्गमाप्नुयात् ॥

मदिरा-शराब, मांस, रात्रिभोजन और कंदमूल का भक्षण जो करते हैं वे नरक में जाते हैं और जो उनका त्याग करें वह स्वर्ग में जाते हैं।

ये रात्रौ सर्वदाऽऽहारं, वर्जयन्ति सुमेधसः ।
तेषां पक्षोपवासस्य, फलं मासेन जायते ॥

जो पुण्यात्माए रात को सर्व आहार का त्याग करते हैं उन्हें एक माह में एकपक्ष (१५ दिन) का उपवास का फल प्राप्त होता है।

अर्थात् रामायण, महाभारत की तरह मार्कण्डेयपुराण में भी मदिरा-शराब, मांस, रात्रिभोजन और कंदमूल का त्याग का ही उपदेश दिया है और त्याग का फल एक माह में एकपक्ष (१५ दिन) के उपवास के बराबर कहा है और उससे स्वर्गप्राप्ति भी बताई है।

नोदकमपि पातव्यं रात्रावत्र युधिष्ठिर ।
तपस्विना विशेषेण, गृहिणा च विवेकिना ॥ मार्कंडेयपुराण अ.३०श्लोक २२.

हे युधिष्ठिर ! तपस्विओ को तो खास और विवेकी गृहस्थो को भी रात को पानी भी नहीं पीना चाहिए।

अर्थात् रात्रिभोजन के त्यागोपरांत सर्व जनो को और खास करके तपस्विओं को, रात को (सूर्यास्त के बाद) पानी का भी त्याग करना आवश्यक है।

त्वया सवमिदं व्याहृतं, ध्येयोडसि जगतां रवे !
त्वयि चास्तमिते देव ! आपो रुधिरमुच्यते !! कपोलस्रोत्र श्लो.२४-स्कन्द पुराण

हे सूर्यदेव ! आपसे सर्व जगत व्याप्त है, और आप जगत को ध्यान करने योग्य हो। इसलिये हे देव ! आपके अस्त होने के बाद पानी भी खुन के जैसा गीना जाता है।

अर्थात् रात्रिभोजन के त्यागोपरांत सर्व जनो को पाप से बचने के लिये सूर्यास्त के बाद पानी का भी त्याग करना आवश्यक है।

नक्तं न भोजयेद्यस्तु, चातुर्मास्ये विशेषतः ।

सर्वकामानवाप्नोति, इहलोके परत्र च । । योगवाशिष्ठ पूर्वार्ध श्लो.१०८

जो लोग रात्रिभोजन नहि करते और चातुर्मास में तो खास रात्रिभोजन का त्याग करते हैं, उनके इसभव और परभव के सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं।

एकभक्तशानान्नित्यमग्निहोत्रफलं लभेत् !

अनस्तभोजनो नित्यं, तीर्थयात्रफलं भवेत् !! स्कन्दपुराण स्कन्द ७ अ.११ श्लो.२३५ .

जो लोग नित्य एक ही बार भोजन करते हैं उनको अग्निहोत्र के फल का लाभ होता है। और जो लोग नित्य सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन करते हैं उन्हें तीर्थयात्रा का फल प्राप्त होता है।

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते, रात्रीभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिनं विद्येत, चान्द्रायणशतैरपि । । ऋषीश्वरभारत-वैदिकदर्शन .

चातुर्मास में भी जो लोग रात्रिभोजन करते हैं, उनके पाप की शुद्धि सहस्र चान्द्रायण तप से भी नहीं हो पाती।

अर्थात् सर्व शास्त्रो में मदिरा-शराब, मांस, रात्रिभोजन और कंदमूल के त्याग का ही उपदेश दिया है। और उसका फल सर्व मनोकामना सिद्धि और घर बैठे तीर्थयात्रा वगैरेह बताया है।

मदिरा-शराब, मांस भक्षण, रात्रिभोजन और कंदमूल भक्षण में अनेक जीवों की हिंसा होती है और वह हिंसा का फल उपर बताये अनुसार नरक के दुःख ही है, इसीलिये उनका त्याग कराया है। और अब अहिंसा का फल बताते हैं।

यो दद्यात् काञ्चनं मेरुं, कृत्स्नां चैव वसुंधराम् ।
एकस्य जीवितं दद्यात्, न च तुल्यं युधिष्ठिर ! ।। महाभारत

हे युधिष्ठिर ! अगर एक मनुष्य सोने के मेरु का दान देता है और दूसरा एक प्राणी को जिवनदान (अभयदान) देता है, उन दोनो की तुलना नहि हो सकती (क्योंकि जिवनदान अधिक श्रेष्ठ है) ।

न भू प्रदान न सुवर्ण दान न गो प्रदानं न तथान्न दानं ।
यथा वदान्तीह महा प्रदानं सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम् ।।

सुवर्ण, पृथ्वी, गाय और अन्नदान से भी अभयदान को महादान कहनेमें आया है।

दीर्घमायुः परं रूपमारोग्यं श्लाघनीयता ।
अहिंसायाः फलं सर्व, किमन्यत् कामदैव सा ।। योगशास्त्र प्र.२.

दीर्घ आयु, श्रेष्ठ रूप, अरोग्य, प्राशंसनीयपना, यह सब अहिंसा के फल जानो, अधिक क्या कहूं? अहिंसा कामधेनु जैसी है।

अर्थात् मदिरा-शराब, मांस भक्षण, रात्रिभोजन और कंदमूल भक्षण के त्याग से जो अहिंसा का पालन होता है, उसको जगत का सर्व श्रेष्ठ दान बताया है और उसका फल कामधेनु समान अर्थात् सर्व मनोकामना सिद्धि रूप बताया है।

मज्झिमनिकाय के कीटागिरिसूत्र में बताया है कि- एक समय बड़े भारी भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध काशी में चारीका करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा “भिक्षुओं ! मैं रात्रिभोजन से विरत हो भोजन करता हूं। रात्रिभोजन छोड़कर भोजन करने से आरोग्य, उत्साह, बल, सुखपूर्वक विहार का अनुभव करता हूं। आओ, भिक्षुओं ! तुम भी रात्रिभोजन विरत हो भोजन करो, रात्रिभोजन छोड़कर भोजन करने से तुम भी उसका अनुभव करो।”

अर्थात् भगवान बुद्ध ने भी रात्रिभोजन त्याग का ही उपदेश दिया है।

संकलनकार: CA. जयेश मोहनलाल शेट.

संकलनकार के पुस्तक WWW.JAYESHSHETH.COM पर उपलब्ध है।